

## प्रेस नोट

### पाकिस्तानी जेल में कैद मछुआरों की रिहाई एवं दमण दीव तथा दादरा नगर हवेली में पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए प्रशासक महोदय ने उठाया विशेष कदम

भारत सरकार के विदेश सचिव ने 13 मार्च, 2014 को विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए सभी राज्यों/संघ प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक अर्धदिवसीय बैठक में आमंत्रित किया था। संघ प्रदेश दमण एवं दीव के माननीय प्रशासक श्री बी. एस. भल्ला आज 13/3/2014 को उक्त बैठक में उपस्थित रहे एवं संघ प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर माननीय सचिव का ध्यान आकर्षित कराए।

- 1) माननीय प्रशासक महोदय ने यह आग्रह किया कि पाकिस्तानी जेल में कैद दीव जिला के 25 मछुआरों को रिहा किये जाने की व्यवस्था की जाए, एवं
- 2) दमण एवं दीव तथा दादरा नगर हवेली के निवासियों को अपने पासपोर्ट हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है। इस कठिनाई को ध्यान में रखकर दमण दीव तथा दादरा नगर हवेली में पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने पर विचार किया जाए।

विदेश सचिव के साथ किये गए विचार-विमर्श के दौरान माननीय प्रशासक महोदय ने यह बताया कि उन्होंने दिनांक 06 मार्च, 2014 को उक्त दोनों मामलों पर विस्तृत जानकारी देते हुए पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी द्वारा कैद किये गए दीव जिला के 25 मछुआरों की सूची विदेश सचिव को भेज दी है। साथ ही उन्होंने माननीय विदेश मंत्री श्री सलमान खुरशीद जी को भी दमण दीव एवं दादरा नगर हवेली के निवासियों को पासपोर्ट प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों के बारे में सूचित करते हुए दमण दीव एवं दादरा नगर हवेली में पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए 28 फरवरी, 2014 को अर्धशासकीय पत्र लिखा था।

-----